



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43]  
No. 43]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 1978/माघ 11, 1899  
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 1978/MAGHA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

अधिसूचनाएं

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 31st January, 1978

नई दिल्ली, 31 जनवरी 1978

CUSTOMS

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 60(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 266 सी. शु. तारीख 30 दिसम्बर, 1977 को अधिकांत करते हुए, यह समाधान हां जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 56 में आने वाले पॉलीनासिक स्टेपल फाइबर को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्योगीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देती हैं।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1978 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेंगी।

[सं. 25/फा. सं. 355/267/77-सी. शु. 1]

G.S.R. 60(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 266-Customs, dated the 30th December, 1977 the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts polynosic staple fibre falling within Chapter 56 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1978.

[No. 25/F.No. 355/267/77-Cus. I]

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 61(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 267 सी. श. तारीख 30 दिसम्बर, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में "31 जनवरी, 1978" शब्द तथा अंकों के स्थान पर "31 मार्च, 1978" शब्द तथा अंक रखे जाएंगे।

[सं. 26/फा. सं 355/267/77-सी. श. I]

एम. जयरामन्, अवर सचिव

#### CUSTOMS

**G.S.R. 61(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 267-Customs, dated the 30th December, 1977, namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and word "31st January, 1978", the figures letters and word "31st March, 1978" shall be substituted.

[No. 26/F.No. 355/267/77-Cus. I]  
M. JAYARAMAN, Under Secy.